

हादरसा सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, आसाम

काहिलपारा, गुवाहाटी - 781019

दानारि सोलोंथाइयारि फानजामुथि

जुन 2021  कलागुरु बिष्णुप्रसाद राभा	सम	मंगल	बुध	बिस्थि	सुक्र	सुनि	रबि
		1 थाखो सान	2 थाखो सान	3 थाखो सान	4 थाखो सान	5 थाखो सान आरो फालिथाइ सान (मुलुगनां आबहावा सान)	6 बन्द सान
	7 थाखो सान	8 थाखो सान	9 थाखो सान	10 थाखो सान	11 थाखो सान	12 थाखो सान	13 बन्द सान
	14 थाखो सान	15 थाखो सान	16 थाखो सान	17 थाखो सान	18 थाखो सान	19 थाखो सान	20 बन्द सान आरो फालिथाइ सान (कलामुठे किन्तु राभानि सान)
	21 थाखो सान आरो फालिथाइ सान (मुलुगनां योग सान)	22 थाखो सान	23 थाखो सान	24 थाखो सान	25 थाखो सान	26 थाखो सान	27 बन्द सान
	28 थाखो सान	29 थाखो सान	30 थाखो सान				

गाहाय गुदि थाखो (थाखो से निफ्राय बा सिम)

थाखो बादियै फरा राननाय

आयदा	सेथि	नैथि	थामथि	ब्रैथि	बाथि
बर' (राव-1)	माउनि आरो दाउखानि बिमुखे खानाय (फर-3)	अरनवारि याव अरगा (फर-3)	रुनकरर ज्यतिप्रथाद आगवाला (फर-3)	कलागुरु बिष्णुप्रसाद राभा (फर-3)	वेबगानि आरजलाइ (फर-3)
सानखान्थि	महर (फर-3)	थाम खोल्लारि महर (फर-3)	सम (फर-3)	लाउथाइ (फर-3)	दखलाइथि आरो सोरगिदि सिमा (फर-3) सानजाबगिरि आरो सानजाबथाइ (फर-4)
इराजी (राव-2)	My Family (Lesson-2)	A Beautiful Butterfly (Lesson-2)	Two Friends and a Bear (Lesson-2)	Who has seen the Wind? (Lesson-3)	Bird Talk (Lesson-3)
आबहावा फरायसनाय			जिउननि थाराबुलि (फर-3) बायदि मैया जिउननि (फर-4)	दे (फर-3) हयुंआरि सान (फर-4)	आसामनि हारिमु (फर-3) मिथिगयारि समपदफोर (फर-4)

थाखो सेनिफ्राय बासिम गाहायाव होनाय मावफारिखौ फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-

सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि ।

- दिदोमथि लाखिनाय ब्याम खालामगोन ।
- जानायनि सिगां आरो जानायनि उनाव साबोनजों आखाइ सुनायनि सर' खालामगोन ।

आरिमु आरो सिल्प सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि

- हा आरो लेखा बिलाइजों ना बानायगोन ।
- गारनाय मुवा जैरे- गाबनि थिमि, प्लाष्टिकनि बथ'ल, मग, काप आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरजों ताव थियारि खालामना बिबार फुलि गायगोन ।



मावफारि आरो फालिथाइ सान

21-29 जुन = सेथि जथाइ सुमोनथाइनि सान थि खालाम । आगट दाननि गिबि हाबथायाव फरायसाफोरनि सुमोनथाइ लानायनि हिसाबखौ दिथागिरिजों सावराय ।
 • सेथि जथाइ सुमोनथाइनि सानाथ बिलाइफोरखौ 14 जुन खालारनि गेजेराव गाहाइ फोरोंगिरिनि आखायाव जमा होनांगोन ।

5 जुन = (क) फुनि आफादआव मुलुगनां आबहावा साननि गोनाथिखौ फोरमायगोन । आबहावानि बिंदु रेखाथिनि थाखाय बिफां-लाइफानि गोनाथिनि फरसे फरायसानि गोसो बोगोन । (ख) सिगांने थग थियारि खालामखानाय बादियै फरायसालिनि सोरगिदि बिफां गायगोन । (ग) आबहावा सरेखा, गुबुले जानायखौ होबथायावआरि आयदायाव रनसाय लिनाय, खन्थाइ लिनाय, हरखाव बिबुथि आरि खुंगोन ।

20 जुन = (क) फुनि आफादआव बिष्णु राभानि मुसुखा/सावगारियाव बिबार बाउगोन । (ख) मोनने पिरियद फोरोंखानायनि उनाव फरायसालियाव विथानि जिउनि सान्थीनि सायाव सावराय मेल, मेथाइ खननाय आरिनि सर' खालामहोगोन ।

21 जुन = योगा सानाव फरायसाफोरखौ योगसन खालाम होगोन आरो योगा साननि गोनाथिनि सोमोन्दै जथुम खुनाने फोरमायगोन । योगसननि गेजेरजों गोसोआरि आरो देहायारि गोहो बाहोनायजों लोगोसे आबहावा आरो सावलिथारि दिदोमथिखौ रेखा खालामनायजों लोगोसे फरायसानि सानफोरमारि जिउवाव दावगालानायव थुलुंगा होगोन ।

30 जुन = थामहिनबा गोलोम बोथोरनि बन्दनि सिगांसान खालि बन्दनि समखौ मोजाडे बाहायनारनि थाखाय फरायसाफोरने मोननेसो न'नि हावा, मावथांखि आरि खालामनो हो । हावानि फोरमायथिनायखौ जुलाइ दाननि बिलाइयाव मख'नाय जादें ।

थाखो सान-	26
रबिबार-	4
गुबुन बन्द सान-	0
गासै सान-	30
(दाननि फालिथाइ सान - 3)	

- फोरोंगिरिया मोनफोरखौ थाखोनि मोनफोरखौ आवदानि मिथिनिनाय फोरोंनाय फिथाइ बादियै फोरोंनाय बिखाथि समलानगोन ।
- जुनिययै हानाय गथ'सानि थाखाय फोरोंगिरिया फराफोरखौ बिसोरनि गोरोबनाय बादियै थियारि खालामना फोरोंगोन ।
- न' एबा फरायसालि साखोन-सिखोन खालामना लाखिनायजों लोगोसे खाथिखाला ओन्सोल आरो सोरगिदि साखोन-सिखोन लाखिनायनि बिबान गुबुनजों लोगोसे फोरोंगिरि आरो फरायसाफोरखौ फालिगोन ।
- लामायाव थाबायनाय एबा बारनायाव गाबनो सांघ्रं जानायजों लोगोसे गथ'सा, बोराइ आरो जुनिया जोथोन लानो गोनां सुबुनो हेफाजाव होनाया जौनि बिबान आरो मावनां ।
- फरायसालिनि सावधि खाथिनि सोमोन्दो जोथोन लानो थाखाय फरायसा संसद एबा गौधुमनिफ्राय सासे एबा सासेनि बांसिन फरायसानि सोद्रेमा थिसन, जेराव फरायसालिनि साखोन सिखोना संरेखा जाना थायो । बे थिथिथि फरायसा सोद्रेमाथो सम सम सोलाय-सोल' खालाम ।



जौगा गुदि थाखो (थाखो द'निफ्राय दाइनसिम)

थाखो बादियै फरा राननाय

आयदा	द'थि	स्निथि	दाइनथि
बर' (राव-1)	बर' फोरनिदानाय लुनाय (फर-3) जौनि उजिननाय हा बिमा (फर-3)	जोनोम हादर (फर-4) गोनोखो आरो जौनि सानसि (फर-5)	बिदिन्थानि खोदोर फरखन (फर-4) जवाननायनि सनाथि मास (फर-5)
सानखान्थि	धुमसुनि गुदि सानखांथिफोर (फर-3)	खरि बाहायनाय (फर-3) बोखावखोन्दो आरो दशमिक (फर-2)	आबाथिब्रे (फर-3) दांफलायारि धुमसु (फर-4)
इराजी (राव-2)	Tom Sawyer(R) (Lesson-2)	Uraka Adventure(R) (Lesson-2)	My Native Land(R) (Lesson-2)
बिगियान	हानायाव मुवाफोर खो थारिखानाय (फर-4)	बिदु (फर-3) एरिसि, खारदे आरो संथि (फर-2)	बिदिन्थानाय : बेने आरो प्लाष्टिक(फरायसालिनाय) (फर-3) मुवाफोर-धातु आरो धातु नडि (फर-4)
समाज बिगियान	मा, बनेयाव मासल आरो माबरी (का) (फर-12) जौनि गोरिदि हवाय (रा) (फर-17)	गुठ सक्कोथनि जखानाय (फर-11) जौनि गोरिदि हवाय (फर-18)	गेजेर मुगानि आसाम (का) (फर-11) गुठ सक्क जौगायधु मुठ सक्क जौगायधु(रा) आरो राक (फर-18)
हिन्दी (राव-3)	धरती माता का पत्र (फर-4)	मेरी राजस्थान यात्रा (फर-4)	मैडम मेरी ब्यूरी (फर-3)

थाखो द'निफ्राय दाइनसिम गाहायाव होनाय मावफारिखौ फोरोंगिरिया फरायसाफोरनि थाखो बादियै दाननि फराजों लोगोसे सोमोन्दो लाखिना सर' खालामहो-

हाबा सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि

- औवानि हाबा : गिसिब, संग्राइ, एम, स्केल, बेरा बायदि बानायगोन ।
- सुथाबनाय हाबा : रुमाल, बुटाम, टेबुल क्लथ, बथानि खोवप्रा, बायदि जिनि वेग बानायनो सोलोंगोन ।

सावस्रि आरो देहायारि सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि

- फुटबल, कावादी, खो-खो, गोलाउ बारनाय, गोजू बारनाय बायदि गेलोगोन ।
- जानायनि सिगां आरो जानायनि उनाव साबोनजों आखाइ सुनायनि सर' खालामनाय ।

आरिमु सोलोंथाइ सोमोन्दै मावफारि

गावगोनां लेखा बिलाइजों कलाज बानायगोन ।



• सोरीथद्वारि फरायसाफोरनि दान बादियै फरा राननाय दख्खो मोनफोरखौ सोमोन्दो सुमोनथाइनि सोमोन्दो आबहावादि विषयस्य फराफोरखौ फोरोंगिरिया गाबनि धनु बादियै फोरोंगिरिनि ।
 • जुन दाननाय हाबाय थारि अरिथिनाय आगुआरि निर । जुदि बे विषयस्य मख'नाय सावरायजो जम जको अन्व फोरोंगिरिया गाबनि धनु बादियै थारि अरिथिनाय अन्व खालामकोनि ।

हादरसा सोलोंथाइ-बिजिरसं आरो फोरोंथाइ गथुम, आसाम

काहिलिपारा, गुवाहाटी - 781019

दानारि सोलोंथाइयारि फानजामुथि

जुलाइ 2021	सम	मंगल	बुध	बिस्थि	सुक्र	सुनि	रबि	
 <p>गासे थाखो सानखी एखे दोननाने बिफनारिनि सिगांअवनो गनापथि लानाने बयक सेरफाडव से निफ्राय द' जुलाइसिम थाखो सान महेरि ह्यनाने समान बिबॉनि फुजानि बन्दजो गोरेबहोफाना सा।</p>				1	गोलोम बोथोरनि बन्द	2	गोलोम बोथोरनि बन्द	
	5	गोलोम बोथोरनि बन्द	6	गोलोम बोथोरनि बन्द	7	गोलोम बोथोरनि बन्द	8	गोलोम बोथोरनि बन्द
	9	गोलोम बोथोरनि बन्द	10	गोलोम बोथोरनि बन्द	11	गोलोम बोथोरनि बन्द (गुबुनं सुबुं अर्बिवा सल)	12	गोलोम बोथोरनि बन्द
	13	गोलोम बोथोरनि बन्द	14	गोलोम बोथोरनि बन्द	15	गोलोम बोथोरनि बन्द	16	गोलोम बोथोरनि बन्द
	17	गोलोम बोथोरनि बन्द	18	गोलोम बोथोरनि बन्द	19	गोलोम बोथोरनि बन्द	20	गोलोम बोथोरनि बन्द
	21	गोलोम बोथोरनि बन्द	22	गोलोम बोथोरनि बन्द	23	गोलोम बोथोरनि बन्द	24	गोलोम बोथोरनि बन्द
	25	गोलोम बोथोरनि बन्द	26	गोलोम बोथोरनि बन्द	27	गोलोम बोथोरनि बन्द	28	गोलोम बोथोरनि बन्द
29	गोलोम बोथोरनि बन्द	30	गोलोम बोथोरनि बन्द	31	गोलोम बोथोरनि बन्द			

गोलोम बोथोराव मावनो गोनां हाबा

गाहाय गुदि थाखो सेनिफ्राय थाखो बासिम

फोरोंगिरिया जुन दाननि जोबनाय थाखो सानाव बे थोरफोनि फरायसाफोरनो बन्दनि समाव न'वाव बायदि रोखोमनि सोलों-फोरों आगजु बानायनो होगोन।

जैरे-

- हांखो कार्ड, अनजिमा कार्ड, सावगारि कार्ड, पोष्टार बायदि।
- हाजों बायदि रोखोमनि मुवा बेसादनि महर बानायनाय।
- लेखा बिलाइनि हेफाजाबाव खाम, ग्रीटिच कार्ड, बिबार बायदि
- मोजां मोननाय आयदायाव सावगारि आखिनाय
- मोजांमोनाय खन्थाइ, मेथाइ बायदिनि सर' खालामनाय

साफ्रोमबो फरायसाया हा थामहिनबा गुबुन आयजेडव फांफायै बिफां फुलि गायना जोथोन लागोन। गोलोमबोथोरनि बन्द जोबनाय उनाव फरायसालि गेवखालि बिफां फुलिखौ फरायसालियाव लाबोगोन आरो सानफ्रोमबो बेनि जोथोन लागोन।

गोलोम बोथोरनि बन्दनि मावफारि आरो फालिथाइ सान

■ फोरोंगिरि, बिमा-बिफा, दिथागिरि आरो समाजनि गोखों मावथि सुबुनि सामलायनायाव जायगायारि मावनाय बिथाखिनि बिथायाव दावबायनाय/सोलोंथाइयारि दावबायनाय आरो नखरारि दावबायनायनि राहा खालाम।

■ फरायसाफोरखौ बिमा-बिफा आरो दिथागिरिखौ सानफ्रोमनि हाबा-हुखायाव हेफाजाब खालामनो थुलुंगा हो।

■ बै समाव खुंनाय समाजारि फोरबो फालिनाय आरो गुबुन गुबुन आफादाव बाहागो लानो थुलुंगा हो। नआव मावनो होनाय मावथांखि आरो गुबुन हाबाफोरखौ मावफुंनायखौ रोखा खालाम।

■ मख'नाय गुबुन गुबुन दावबायनाय हाबाफारिनि सायाव मोनफायै दावबायनाय रेबसुं लिरनो हो।

गोलोम बोथोराव मावनो गोनां हाबा


जौगा गुदि थाखो द'निफ्राय थाखो दाइनसिम

फोरोंगिरिया जुन दाननि जोबनाय थाखो सानाव बे थोरफोनि फरायसाफोरनो बन्दनि समाव न'वाव बायदि रोखोमनि सोलों-फोरों आगजु बानायनो होगोन।

जैरे-

- दावबायनाय सल', सुंद सल', खन्थाइ बायदि।
- औवा राइदोंनि बायदि आगजु
- रुमाल,टेबुलक्लथ, एमब्र'इदारी बायदि
- बायदि रोखोमनि मुख, फाइल कभार बायदि
- मोजां मोननाय आयदानि सायाव पोष्टार, बेनार स्ल'गान बायदि
- मोजां मोननाय आयदानि सावगारि आखिनाय।

साफ्रोमबो फरायसाया हा थामहिनबा गुबुन आयजेडव फांफायै बिफां फुलि गायना जोथोन लागोन। गोलोमबोथोरनि बन्द जोबनाय उनाव फरायसालि गेवखालि बिफां फुलिखौ फरायसालियाव लाबोगोन आरो सानफ्रोमबो बेनि जोथोन लागोन।



थाखो सान-	0
रबिबार-	4
गोलोम बोथोर बन्द सान-27	
गासे सान-	31
(दाननि फालिथाइ सान - 0)	

